



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1934 (श0)
(सं0 पटना 247) पटना, सोमवार, 11 जून 2012

सं0 3ए-4-प्र0 (प्र0को0)-04/2011—6172 (वि0)

वित्त विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
पटना, बिहार ।
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
हिनू, राँची, झारखंड ।

पटना, दिनांक: 08 जून 2012

विषय:- श्रम संसाधन विभाग के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के मूल/कनीय प्रवर/वरीय प्रवर कोटीय वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभागीय पत्रांक 1081, दिनांक 24 जनवरी 2012 की कंडिका 5 को संशोधित एवं विलोपित करते हुए उक्त कंडिका को निम्नांकित अंश/कंडिका से प्रतिस्थापित समझा जाय:-

संशोधित वेतनमान का लाभ संबंधित कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी 1986 से वैचारिक एवं दिनांक 01 मार्च 1989 के प्रभाव से वास्तविक रूप से भुगतेय होगा ।

दिनांक 01 मार्च 1989 से 31 मार्च 1995 तक की देय बकाया राशि सभी संबंधित कर्मियों के भविष्य निधि में जमा की जायेगी तथा उत्क्रमित वेतनमान में निर्धारित वेतन का नकद भुगतान 01 अप्रैल 1995 से देय होगा।

जो कर्मी सेवा-निवृत्त हो चुके हैं उन्हें नकद भुगतान किया जायेगा। चूँकि इस वाद के सभी वादी वर्ष 1999 में ही सेवा-निवृत्त हो चुके हैं अतएव उन्हें दिनांक 01 मार्च 1989 से 31 मार्च 1995 तक की राशि का नकद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

विश्वासभाजन

अरुण कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 247-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>